



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 1 नवम्बर, 2023

कार्तिक 10, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या 1569/सत्रह-म-2023-17-1099-183-2019

लखनऊ, 1 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०-53

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1993 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2023

1-(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित) सेवा (द्वितीय संशोधन) संक्षिप्त नाम और नियमावली, 2023 कही जायेगी; प्रारम्भ

(दो) यह 1 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1993 में नीचे स्तम्भ-1 में उप नियम 5 (1) दिये गये विद्यमान उप नियम 5 (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:- का प्रतिस्थापन

स्तम्भ-1

वर्तमान उप नियम

(1) निदेशक-मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशक जिन्होंने इस रूप में सात वर्ष की सेवा और कुल पच्चीस वर्ष की सेवा और उप निदेशक जिन्होंने इस रूप में दस

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

(1) निदेशक-मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशक जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा और कुल पच्चीस वर्ष की सेवा अथवा

स्तम्भ-1**वर्तमान उप नियम**

वर्ष की सेवा और कुल पच्चीस वर्ष की सेवा भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**

संयुक्त निदेशक/उप निदेशक जिन्होंने उप निदेशक के रूप में दस वर्ष की सेवा और कुल पच्चीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा।

आज्ञा से,

डा० रजनीश दुबे,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1569/XVII-M-2023-17-1099-183-2019, dated November 1, 2023 :

No. 1569/XVII-M-2023-17-1099-183-2019

*Dated Lucknow, November 1, 2023*

In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Governor is please to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Fisheries (Gazetted) Service Rules, 1993 :-

**THE UTTAR PRADESH FISHERIES (GAZETTED) SERVICE  
(SECOND AMENDMENT) RULES, 2023**

Short title and  
commencement

1. (i) These rules may be called the Uttar Pradesh Fisheries (Gazetted) service (Second Amendment) Rules, 2023;  
(ii) They shall come into force with effect from July 1, 2023.

Substitution of  
sub-rule 5(1)

2. In Uttar Pradesh Fisheries (Gazetted) service rules, 1993, *for* existing sub-rule 5 (1) set out in Column-1 below, the rules as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :-

**COLUMN-1**

*Existing sub-rule*

**(1) Director**-By promotion from amongst substantively appoint Joint Director who have completed seven years of service as such and a total service of twenty five years and Deputy Director, who have completed ten years of service as such and a total service of twenty-five years on the first day of the year of recruitment.

**COLUMN-2**

*Sub-rule as hereby substituted*

**(1) Director**-By promotion from amongst substantively appointed Joint Director who have completed seven years of service as such and a total service of twenty five years or Joint Director/ Deputy Director, who have completed ten years of service as Deputy Director and a total service of twenty-five years on the first day of the year of recruitment.

By order,

DR. RAJNEESH DUBE,

*Apar Mukhya Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 21 राजपत्र-2024-(57)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० मत्स्य-2024-(58)-100 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।